

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक- 20.02.2021

थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

25 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत की 590 ग्राम अफीम के साथ मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एवं श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

थाना कटरा की पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी मे भ्रमणशील थी तो मुखबिर की सूचना पर समय करीब 17.25 बजे कटरा हाईवे रोड लाल पेट्रोल पम्प के पास पर चैकिंग के दौरान टेम्पू से अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र बहादुर लाल निवासी गुरगवा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को 590 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 100/2021 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम सुशील कुमार उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

अपराध करने की तरीका

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह आसपास के अफीम की खेती करने वालों से चोरी छिपे कम कीमत पर अफीम खरीदकर, क्षेत्र के लोगों को बेचता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सुशील कुमार पुत्र बहादुर लाल निवासी गुरगवा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त सुशील कुमार उपरोक्त के कब्जे से 590 ग्राम अफीम बरामद जिसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रूपये है ।

आपराधिक इतिहास:-

सुशील कुमार पुत्र बहादुर लाल निवासी गुरगवा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

मु0अ0सं0 100/2021 धारा 8/18 NDPS.ACT एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. व0उ0नि0 संतोष कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
2. हे0का0 29 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
3. हे0का0 400 अजय राना थाना कटरा जनपद शाह0
4. का0 1802 नवीन कुमार थाना कटरा जनपद शाह0

